



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 20] नई दिल्ली, शनिवार, मई 20—मई 26, 2006 (वैशाख 30, 1928)

No. 20] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 20 —MAY 26, 2006 (VAISAKHA 30, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of
Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 मई 2006

सं. 250, दिनांक 17 अप्रैल 2006--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (महाराष्ट्र : 92) के अधिकारी श्री राकेश रंजन को 11.8.2005 (पूर्वाह्न) से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा रक्षा मंत्री के निजी सचिव के रूप में कार्य करने तक अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, 15,100-400-18,300/- रुपए के वेतनमान में उप सचिव के स्तर पर रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) के निजी सचिव नियुक्त करते हैं। केन्द्र में उनके कार्यकाल की गणना 27.6.2005 से की जाएगी।

राष्ट्रपति, आई आर एस ई ई (87) के अधिकारी श्री सुधीर गर्ग का रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) से स्थानांतरण होने पर उन्हें 31 मार्च, 2006 (अपराह्न) से 31 मार्च, 2011 तक अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, रक्षा मंत्रालय में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

जी. विजयराघवन
अवर सचिव

सेना शाखा

मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय

सं. 251, दिनांक 17 अप्रैल 2006--राष्ट्रपति महोदय कुमारी असलम

खान (जन्मतिथि : 05 मार्च 1975) को दिनांक 25.11.2005 से 6,500-200-10,500 रु. के वेतनमान में नियमित रूप से सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में अनुभाग अधिकारी (ग्रुप 'बी' राजपत्रित) के पद पर नियुक्त करते हैं।

शंकर सिंह
उप मुख्य प्रशासन अधिकारी (प्रशा.)

सं. 252, दिनांक 18 अप्रैल 2006--भारत के राष्ट्रपति अपने अवैतनिक वैयक्तिक स्टाफ में 17 मार्च 2006 से निम्नलिखित नियुक्त करते हैं :--

अवैतनिक वायु सेना एडीसी -

1. एयर मार्शल ए डी जोशी, प. वि. से. मे., वी. एम. (10886) एफ (पी)
2. एयर मार्शल ए के सिंह, प. वि. से. में., अ. वि. से. मे., वी. एम., वि. से. मे. (11005) एफ (पी)

एस. डी. बांगा
अवर सचिव

सं. 253, दिनांक 19 अप्रैल 2006--राष्ट्रपति, निम्नलिखित की सहर्ष नियुक्त करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी आयोग

(ले. के पद पर 08 दिसम्बर 2001 से)

निम्नलिखित अधिकारी को भारत सरकार के राजपत्र, जो कि दिनांक 26 अक्टूबर 2002 को प्रकाशित हुआ है, में सम्मिलित किया जाता है :--

स्वरूप सिंह कुंतल (आई सी-61414एच), ईएमई, ज्येष्ठता कश्यप ठक्कर (आई सी-61413ए) इन्फैन्ट्री के नीचे प्रदर्शित किया जाए।

निम्नलिखित जैण्टलमैन कैडेट जो कि 98 टी जी सी पाठ्यक्रम के हैं, को 10 दिसम्बर 2004 (पूर्वाह्न) से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94 के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत लेफ्टिनेन्ट के पद पर स्थाई आयोग अनुदान किया जाता है। उन्हें 11 दिसम्बर 2002 से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94 के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत दो वर्ष पूर्व दिनांकित वरिष्ठता, वेतन तथा उन्नति के लिए दी जाती है :--

टी/6150 केशव सिंह जसरोतिया (आई सी-64744एम), ईएमई की वरिष्ठता टी/6130 एम सागिर अली (आई सी-64743के) इंजीनियर्स के नीचे, टी/6140 शैलेश बडोला (आई सी-64753एन) सिग्नल्स की वरिष्ठता टी/6098 नलिन शुक्ला (आई सी-64752एल) आर्टी के नीचे और टी/6187 सूरज शर्मा (आई सी-64806एफ) आर्टी की वरिष्ठता टी/6144 आदर्श कुमार (आई सी-64805वाई) आर्टी के नीचे प्रकाशित किया जाए, जिनके नाम भारत के राजपत्र दिनांक 17 दिसम्बर 2005 में प्रकाशित हो चुके हैं।

अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन)

निम्नलिखित जैण्टलमैन कैडेट जो कि 98 टी जी सी पाठ्यक्रम के हैं, को लेफ्टिनेन्ट के पद पर उनके सम्मुख अंकित तिथि से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94 के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत पूर्व-आयोग प्रशिक्षण अवधि के लिए, जो कि भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून में प्रशिक्षणार्थ है, अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) अनुदान किया जाता है :--

आईएमए सं., नाम, एसएस सं., आर्म/सर्विस, अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि

टी/6140 शैलेश बडोला (41111एम), सिग्नल्स, 16 जनवरी 2004

टी/6150 केशव सिंह जसरोतिया (41119वाई), ईएमई, 16 जनवरी 2004

टी/6187 सूरज शर्मा (41154एफ), सिग्नल्स, 20 जनवरी 2004

चंद्रशेखर

ले. कर्नल

एएमएस-8बी

(निजी स्टाफ)

सं. 254, दिनांक 19 अप्रैल 2006--भारत के राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों को 27 मार्च 2006 से अपने अवैतनिक स्टाफ में नियुक्त करते हैं :--

अवैतनिक चिकित्सक की नियुक्ति

चिकित्सा सेवा नौ सेना का अधिकारी

सर्जन वाइस एडमिरल (श्रीमती) पी अरोड़ा, एसएम, वीएसएम (एम आर 62249एल)

विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी

ले. जनरल एम एल चावला, वीएसएम (एम आर-02068ए)

चिकित्सा सेवा वायुसेना का अधिकारी

एयर मार्शल एच के मैनी, वीएसएम (एम आर-02282एच)

चिकित्सा सेवा थलसेना का अधिकारी

ले. जनरल एल पी सधोभा, एवीएसएम (एम आर-03158एन)

महानिदेश दन्त चिकित्सा सेवा

ले. जनरल परमजीत सिंह, एवीएसएम, वीएसएम* (डीआर-10267एच)

राजेश कामरान

ब्रिगेडियर

उप म.नि.स.से.चि.से (पी)

वायु शाखा

सं. 255, दिनांक 19 अप्रैल 2006--राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसरों को उनके नाम के सामने दी गई तिथि से वायु सेना आदेश 59/98 के उपबन्धों के तहत स्थायी कमीशन तथा विंग परखाधीन प्रदान करते हैं। यह अफसर स्थायी कमीशन तथा विंग परखाधीन प्रदान करने की तारीख से उड़ान वेतन पाने के हकदार हैं।

भारतीय वायु सेना

उड़ान पायलट शाखा

भूतपूर्व फ्लाइट कैडेट फ्लाईंग अफसर रैंक में

फ्लाईंग अफसर मानव भाटिया (27695), अजीत भारकर वासने (27697), सौरभ काबरा (27713), बलरामन जय गणेश (27714), विकास पुरी (27716), सागर वसन्त धुपकर (27721), सिंह अमित सुरेन्द्र (27722)--दिनांक 20 दिसम्बर 2003 से।

राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसर को उसके नाम के सामने दी गई तिथि से वायु सेना आदेश 59/98 के उपबन्धों के तहत स्थायी कमीशन तथा विंग परखाधीन प्रदान करते हैं ये अफसर स्थायी कमीशन तथा विंग परखाधीन प्रदान करने की तारीख से उड़ान वेतन पाने के अधिकारी हैं।

भारतीय वायु सेना

उड़ान पायलट शाखा

भूतपूर्व फ्लाइट कैडेट फ्लाईंग अफसर के रैंक में

फ्लाईंग अफसर इ बी एस राघवेन्द्र कुमार (28008), दिनांक 19 जून 2004 से।

संजीव श्रीवास्तव

विंग कमांडर

जेडीपीओ-3डी

सं. 256, दिनांक 17 अप्रैल 2006--समयपूर्व प्रत्यावर्तन होने के परिणामस्वरूप आई पी और टी ए तथा एफ एस (1995) के अधिकारी

और रक्षा मंत्रालय में उप सचिव श्री प्रसून कुमार सिन्हा की सेवाएं 31.3.2006 (उपराह्ता) से संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूर संचार विभाग, नई दिल्ली को सौंपी जाती हैं।

जी. विजयराघवन, अवर सचिव

सं. 257 तारीख 17 अप्रैल 2006— राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:—

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

मैकानाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजिमेन्ट

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार दिल बहादूर छेत्री (जेसी-419665वाई), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार चंद्रा बल्लभ (जेसी-419698के), 15 जनवरी 2006*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 दी जाती है।)

नायब सूबेदार प्रेम सिंह (जेसी-419716एफ), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार जगदीश चंद्र (जेसी-419760एल), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार बलवन्त सिंह (जेसी-419771 एक्स), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार सोहन सिंह (जेसी-419789एन), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार नरिन्दर सिंह (जेसी-419835एक्स), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार कुलवन्त सिंह राणा (जेसी-419974एफ), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार सुन्दर लाल सैनी (जेसी-419240ए), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार मॅथ्यु के एम (जेसी-419241एच), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार सरवेश सिंह (जेसी-419425एफ), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार हरि राम (जेसी-419453एन), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार शितला प्रसाद पान्डे (जेसी-419522वाई), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार विक्रम सिंह चौहान (जेसी-419554एफ), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार राम अवतार (जेसी-419584वाई), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार चचल सिंह (जेसी-419851पी), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार प्रेम चन्द माली (जेसी-419854एच), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार अत्तर सिंह (सं. 14902061एच अब जेसी-420427वाई), 25 दिसम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है।)

हवलदार दान बहादूर रेगामी (सं. 14906899एच अब जेसी-420428एफ), 10 जनवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है।)

हवलदार सुरेश चन्द (सं. 14907719एफ अब जेसी-420429के), 31 दिसम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है।)

हवलदार जोगिन्दर सिंह (सं. 14908541एच अब जेसी-420430वाई), 01 जनवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है।)

हवलदार लक्ष्मी कान्त पाण्डेय (सं. 14907297एफ अब जेसी-420431एफ), 23 जनवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है।)

हवलदार राजपाल (सं. 14909662डब्ल्यू अब जेसी-420432के), 16 जनवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है।)

हवलदार दिलावर सिंह (सं. 2982161पी अब जेसी-420433एम), 12 जनवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाती है।)

हवलदार मधुर सिंह (सं. 14902815एम अब जेसी-420434पी), 20 जनवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाती है।)

हवलदार योगम्बर सिंह रोथान (सं. 14908917वाई अब जेसी-420435एक्स), 03 फरवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाती है।)

हवलदार मननाम प्रसाद राव (सं. 14908826पी अब जेसी-420436ए), 02 जनवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाती है।)

हवलदार मकर सिंह (सं. 14910093ए अब जेसी-420437एच),
01 जनवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाती है।)

हवलदार साइमन पी (सं. 14906215एफ अब जेसी-420438एल),
01 फरवरी 2006

हवलदार अरविन्द कुमार सिंह (सं. 14905843के अब जेसी-420439एन), 01 फरवरी 2006

हवलदार महेन्द्र सिंह राडौर (सं. 14906250के अब जेसी-420440एच),
01 फरवरी 2006

राष्ट्रपति के अंगरक्षक

नायब रिसालदार के रैंक में आरडीएम परमजित सिंह
(सं. 13700369एक्स अब जेसी-235043एक्स), 01 फरवरी 2006

जोस थोभस
अवर सचिव

सं. 258, दिनांक 19 अप्रैल 2006--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों को पदोन्नति करते हैं:--

नियमित सेवा

स्थायी कमीशन

(सेना चिकित्सा कोर)

मेजर जनरल (व समकक्ष) से ले. जनरल (व समकक्ष) रैंक में
योगेन्द्रा सिंह (एम आर-02475एच), 01 दिसम्बर 2005

कर्नल (व समकक्ष) से ब्रिगेडियर (व समकक्ष) रैंक में

शमशेर सिंह (एम आर-03241एल), 18 जनवरी 2005 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले वरीयता 02 दिसम्बर 2004 से दी जाती है।

ले. कर्नल (व समकक्ष) से कर्नल (व समकक्ष) रैंक में

एच.एस. गिल (एम आर-03772एच), 10 नवम्बर 2004 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले वरीयता 27 अप्रैल 2004 से दी जाती है।

आर कामरान,
ब्रिगेडियर
उप म.नि.स.से.वि.से. (का.)

सं. 259, दिनांक 19 अप्रैल 2006--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नति करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर से ले. कर्नल

आई सी सं., नाम, आर्म

41082 राजीव कुमार गुप्ता, इन्फैन्ट्री

41192 शमशेर सिंह किन्हा, इन्फैन्ट्री

43775 पी.के. माथूर, सिग्नल्स

43853 गुरजीत सिंह, एओसी

43968 बी. कुमार, इन्फैन्ट्री

44077 पी.एस. सन्धु, इन्फैन्ट्री

47983 गुरनाम सिंह, सिग्नल्स

47991 राजेन्द्र सिंह नरूला, इंजीनियर्स

48112 सर्विन्द्रा ए वर्ती, एसी

47438 कृष्णा कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री

43655 के विनोद कुमार, सिग्नल्स

43672 सुधांशु वर्मा, एओसी

43979 सुदर्शन सिंह, एससी

44126 रविन्द्र सिंह भट्टी, मैक इन्फैन्ट्री

44167 नरेन्द्र पाल सिंह, इन्फैन्ट्री

44319 चन्द्रशेखर नोटियाल, इन्फैन्ट्री

41862 राजपाल पुनिया, मैक/इन्फैन्ट्री

38248 परमजीत सिंह, सिग्नल्स

43240 अच्युतन कुट्टी के एन, इन्फैन्ट्री

43153 राजीव रतन कटियाल, इंजीनियर

43352 जोशा नारायणदत्त गणेश दत्त, इण्ट

43377 अनिल कुमार, सिग्नल्स

43404 प्रणव मिश्रा, आर्टी

43468 पदमा कुमार, इण्ट

43481 संजय प्रोवर, आर्टी

45550 दिनेश पनवर, इन्फैन्ट्री

45594 अशोक कुमार, इन्फैन्ट्री

41913 रवि कनाकील, आर्टी

42582 के. प्रनाधारथी हरन, सिग्नल्स

42659 अभय राज शर्मा, आर्टी

45303 सुनील कुमार, एसी

37813 विनोद, इन्फैन्ट्री	46730 जसप्रीत सिंह सेखोन, एसी
37922 जतिन्द्र सिंह अरोड़ा, आर्टी	44405 एस के गौतम, मैक/इन्फैन्ट्री
37934 चाउगुले विजय दनायनदेव, इन्फैन्ट्री	49269 नरेन्द्रा सिंह, ईएमई
37993 संजय सोई, इन्फैन्ट्री	51396 जवाहर सिंह, ईएमई
39572 राजीव जेटली, इन्फैन्ट्री	51397 एस राजू, सिग्नल्स
39573 राजेन्द्र कुमार, एओसी	51398 एन एस रमन, इंजीनियर्स
39647 दलीप बक्शी, आर्टी	51399 अजित मीलू, इंजीनियर्स
39761 अन्शु गम्भीर, एएससी	51401 बलजीत सिंह, ईएमई
39881 टोली राम सोमातिया, एओसी	51402 जी एस कनवर, इंजीनियर्स
39978 जगदीप सिंह, आईएमएफ	51403 परविन्दर सिंह, इंजीनियर्स
39985 रूपिन्दर सिंह गिल, इन्फैन्ट्री	51404 एफ अमरीथाराज पी ए, ईएमई
40092 एस सुनील कुमार, इंजीनियर	51405 वी एस कांग, ईएमई
40235 गोपाल आर, इन्फैन्ट्री	51406 राजेश अग्रवाल, इंजीनियर्स
40248 विकास पुरी, आर्टी	51407 व्हाई सी पाण्डे, ईएमई
40305 रघुराम अकंला, इंजीनियर	51409 आर आर मुन्शी, इंजीनियर्स
40333 माईके ओबेराय, इंजीनियर	51410 सुदीपता पाल, इंजीनियर्स
40374 कनवर अशोक महाबीर, इन्फैन्ट्री	51411 एस तांगरी, ईएमई
40523 भूप राज सिंह, एसी	51412 जे एन भामरे, इंजीनियर्स
40846 प्रेम जीत सिंह, आर्टी	51413 पी जे थोमस, इंजीनियर्स
41150 लेवेलिन साईरिल पाल, इन्फैन्ट्री	51414 योगेश यादव, इंजीनियर्स
41152 देवराज, आर्टी	51415 आर एस शेखावत, इंजीनियर्स
41162 जयंत जनार्दन खरे, आर्टी	51416 बी एस सैनी, ईएमई
42066 दिनेश चन्द्र शर्मा, इन्फैन्ट्री	51420 पवन कुकरेजा, सिग्नल्स
42071 एस राविन्द्रन पिल्लई, इन्फैन्ट्री	51421 एस के चेट्टी, इंजीनियर्स
42638 नरेन्द्र बी पटेल, एओसी	51422 राजन बसेरा, सिग्नल्स
43185 गोरखा शंकर, ईएमई	51424 इकबाल असलम, इंजीनियर्स
39893 पंकज गोयल, एडीए	51425 एम के खरे, इंजीनियर्स
49486 नरेन्द्रा सिंह, इन्फैन्ट्री	51426 अरविन्दर सिंह, इंजीनियर्स
49506 सुधीर कुमार सिंह, सिग्नल्स	51427 आर कुमार, सिग्नल्स
40696 राजेश कुमार, एसी	51429 स्कलेन सिन्हा, इंजीनियर्स
40708 सतीन्द्र इकबाल सिंह, एसी	51430 आई बोरधेन, इंजीनियर्स
40799 वनके गदोला, इन्फैन्ट्री	51431 ए शानदिलया, सिग्नल्स
41028 कनवर सिंह चहल, इन्फैन्ट्री	51432 एस मामगेन, इंजीनियर्स
45003 संग्राम सिंह, एसी	51433 कान देव, इंजीनियर्स

51434 एन एम बालचन्द्रन, इंजीनियर्स

51435 नीरज शर्मा, इंजीनियर्स

51436 विकास शर्मा, ईएमई

51438 एन के जैन, इंजीनियर्स

51439 वाई मोहन, इंजीनियर्स

51441 संजय गर्ग, इंजीनियर्स

51442 एस के आहलूवालिया, सिग्नल्स

51444 पी मैथ्युसुथानन, ईएमई

51445 सी पी श्रीराम, ईएमई

51446 एस एम कानन, सिग्नल्स

51447 एस पतरानवीस, इंजीनियर्स

51448 जितेश कुमार, ईएमई

51449 विनोद कुमार, ईएमई

51451 विवेक जैन, इंजीनियर्स

51452 साम शर्मा, ईएमई

51453 वी शास्त्री, इंजीनियर्स

51454 ए श्रीनाथ, सिग्नल्स

51455 के रोशन राज, ईएमई

51456 नीरज बक्शी, ईएमई

51457 के एन नरसिम्हा, इंजीनियर्स

51459 के सुनदरेश, ईएमई

51460 श्रीहर्षा, सिग्नल्स

51462 पी जे सिंह, सिग्नल्स

51463 सुनील मूर्ति, इंजीनियर्स

51464 बी प्रसाद, इंजीनियर्स

51465 सलील बक्शी, इंजीनियर्स

40663 आर के भटनागर, इंजीनियर्स

--16 दिसम्बर 2004

4594 अनिल खन्डारी, एस एल (ए एस पी टी)

--16 दिसम्बर 2004

मेजर से ले. कर्नल

3335 दिलबाग सिंह, एस एल आर ओ

3353 पी के पुरी, एस एल आर ओ

3913 सी जे जोसफ, एस एल एस ए

3071 पी वेंकटचेल्लम, एस एल ए ई

3659 वाई डी शर्मा, एस एल ई आर

35757 आर के शर्मा, ए एस सी

--16 दिसम्बर 2004

मेजर से ले. कर्नल

एस एल नं., नाम, आर्म

3494 धर्म राजन, एस एल टी ओ टी

3680 अभी मनीओ मनहास, एस एल ए ई

3701 जय सिंह कालीरमन, एस एल आर ओ

3715 दिनकर राय, एस एल (टी ओ टी)

3778 सुभाष राज, एस एल (यू एम)

3828 मोहन सिंह बोरा, एस एल ए ई

03941 शेलके साहेब राव पार्वती, ई एम ए ई (एस ए)

3952 आर पी यादव, एस एल ई एम ए ई (एस ए)

3953 टी एम वी रॉव, एस एल ई एम ए ई (एस ए)

3748 मोहर सिंह, एल एल सी आई पी एच

3753 चामर्ति वेंकटा लक्ष्मी एन रॉव, एस एल आर ओ

स्थायी कमीशन

मेजर से ले. कर्नल (एस एल)

एस एल सं., नाम, आर्म

3899 मनमधन नायर डी, एस एल ई एम ए ई (एस ए)

--16 दिसम्बर 2004

अजय गोयल

उप निदेशक

(वायु शाखा)

सं. 260, दिनांक 18 अप्रैल 2006--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित मूल पदोन्नति करते हैं :--

भारतीय वायु सेना

वैमानिक इंजीनियरिंग शाखा

एयर वायस मार्शल के मूल रैंक में :--

जी. पी. एस. दुआ (13306), वै.ई.(यां), 03 अक्टूबर 2005

गुप कैप्टन के मूल रैंक में :--

एम एस शंकर (15810), वै.ई.(वै), 01 जुलाई 2005/01 जुलाई 2003 (नो.से.)

[इनका नाम ग्रुप कैप्टन टी चंद (16149), वै.ई.(वै) और एस शर्मा (15839) वै.ई.(वै) के बीच में आएगा।

बी. एस. विदी (15260), वै.ई.(यां), 15 अप्रैल 2005

जी एन एस प्रेमनाथ (15259), वै.ई.(यां), 15 अप्रैल 2005

एम ककर (14586), वै.ई.(वै), 15 अप्रैल 2005

आर सिंह (15089), वै.ई.(वै), 15 अप्रैल 2005

जी सिंह (15270), वै.ई.(वै), 15 अप्रैल 2005

एम आर थेल्ला (15459), वै.ई.(वै), 15 अप्रैल 2005

के के धिमान (15292), वै.ई.(वै), 09 जून 2005

आर कुमार (15631), वै.ई.(वै), 09 जून 2005

आई जे सिंह (15637), वै.ई.(यां), 09 जून 2005

(पी आर-30 जून 2005)

एस पी यादव (15840), वै.ई.(यां), 09 जून 2005

के एम एस प्रदीप (15818), वै.ई.(वै), 09 जून 2005

जी कुमार (15831), वै.ई.(वै), 09 जून 2005

जे एम जोशी (15959), वै.ई.(वै), 01 जुलाई 2005

एस एस आनन्द (15944), वै.ई.(वै), 08 जुलाई 2005

ए के भट्टाचार्या (16322), वै.ई.(यां), 08 जुलाई 2005

टी एल वर्मा (16314), वै.ई.(वै), 08 जुलाई 2005

टी एन अजीत कुमार (16309), वै.ई.(वै), 01 अगस्त 2005

जे सिंह (16529), वै.ई.(वै), 09 अगस्त 2005

टी बी मैथ्यू (17111), वै.ई.(वै), 01 जनवरी 2006

पी के तयाल (16751), वै.ई.(वै), 01 जनवरी 2006

आर गनदोत्रा (16748), वै.ई.(यां), 01 जनवरी 2006

जी कार्तिकेयन (16741), वै.ई.(वै), 01 जनवरी 2006

एम आर पवार (15833), वै.ई.(यां), 29 जुलाई 2005/01 नवम्बर 2003(नो.से.)

[इनका नाम ग्रुप कैप्टन आर सेलवामनी (15957) वै.ई.(वै.) और पी कुमार (15970) वै.ई.(यां) के बीच में आएगा]

उड़ान शाखा

एयर वॉयस मार्शल के मूल रैंक में :--

डी एन गणेश (13243), उ.पा, 01 दिसम्बर 2005

एयर कॉमोडोर के मूल रैंक में :--

एस श्रीवास्तव (13782), उ.पा, 10 जनवरी 2005/01 अक्टूबर 2004 (नो.से.)

जे चौहान (14079), उ.पा, 01 अक्टूबर 2004

आई सिंह (14082), उ.पा, 25 अक्टूबर 2004

आर के जौल्ली (14083), उ.पा, 01 नवम्बर 2004

पी सिंह (14086), उ.पा, 03 जनवरी 2005/01 नवम्बर 2004 (नो.से.)

आर के सिंह (14088), उ.पा, 01 नवम्बर 2004

यू पी बिस्वास (14090), उ.पा, 01 दिसम्बर 2004

पी कुमार (14093), उ.पा, 01 दिसम्बर 2004

एस मिश्रा (14094), उ.पा, 27 दिसम्बर 2004

पी एस गिल (14097), उ.पा, 10 जनवरी 2005

पी के राय (14100), उ.पा, 08 मार्च 2005/10 जनवरी 2005 (नो.से.)

पी रामू (14102), उ.पा, 10 जनवरी 2005

एम मथेस्वरण (14104), उ.पा, 01 मार्च 2005

के के द्विवेदी (14105), उ.पा, 03 मार्च 2005

आर ओ जे एस्से (14108), उ.पा, 29 मार्च 2005

ए के मल्होत्रा (14112), उ.पा, 01 मई 2005

जे के भूयां (14115), उ.पा, 13 मई 2005

[इनके नाम एयर कामोडोर एस शर्मा (13813) उ.पा के नीचे आएगा।

ग्रुप कैप्टन के मूल रैंक में :--

डी धवन (15403), उ.पा, 10 मई 2004

[इनका नाम ग्रुप कैप्टन ए वर्मा (15410) उ.पा के ऊपर आएगा।

एस बनर्जी (15892), उ.पा, 10 मई 2004

[इनका नाम ग्रुप कैप्टन एस अदयन्थ्या (15899) उ.(न) और के आर रघुनाथ (16027) उ.पा के बीच में आएगा।

जी एस मान (16033), उ.पा, 10 मई 2004

[इनका नाम ग्रुप कैप्टन के आर रघुनाथ (16027) उ.पा के नीचे आएगा।

एस एन मोहनति (16052), उ.पा, 10 मई 2004

एम पी थौमस (16065), उ.पा, 10 मई 2004

[इनका नाम ग्रुप कैप्टन सी प्रकाश (16250) उ.(न) के ऊपर आएंगे।

के ए मुथाना (16372), उ.पा, 01 जनवरी 2005/10 मई 2004(नो.से)

[इनका नाम ग्रुप कैप्टन जे चन्द्रशेखर (16374) उ.पा के ऊपर आएगा।

ए सुब्रमनियम (16592), उ.पा, 01 मार्च 2005

वी एस भारती (16611), उ.पा, 01 मार्च 2005

पी एस संधु (16615), उ.पा, 01 मार्च 2005

(पी/आर-15 अप्रैल 2005)

एम मम्मेन (16618), उ.पा, 19 दिसम्बर 2005/01 मार्च 2005 (नो.से.)
(इनके नाम ग्रुप कैप्टन आर सचदेवा (16582) उ.पा के नीचे आएंगे)।

के. वी. शंकर
संयुक्त निदेशक कार्मिक (अधिकारी)-2 (बी)

(थल सेना विभाग)

सं. 261, दिनांक 19 अप्रैल 2006--राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को उनके निजी कारणवश निवेदन पर उनके नाम के सम्मुख लिखी तारीख से सेवा निवृत्ति की अनुमति प्रदान करते हैं :--

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(अल्पकालीन कमीशन)

निवृत्ति

(डी एस-12080पी) कैप्टन करुण सागर, 30 अगस्त 2005 (एफ एन)

(डी एस-12143एम) कैप्टन नितिन कौशल, 01 जनवरी 2006 (एफ एन)

डी. के. तनेजा
मेजर जनरल
ए डी जी डी एम

सं. 262, दिनांक 17 अप्रैल 2006--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय में उप सचिव श्री गुरदयाल सिंह की अधिवर्धिता की आयु पूरी होने पर उन्हें 31 मार्च, 2006 (अपराह) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

जी. विजयराघवन
अवर सचिव

वायु शाखा

सं. 263, दिनांक 19 अप्रैल 2006--राष्ट्रपति ने निम्नांकित अफसरों की सेवा निवृत्ति की अनुमति प्रदान की है।

भारतीय वायु सेना

एफ पी (शाखा)

विंग कमांडर जे चाहारी (16406), 31 मार्च 2004 (एडी)

विंग कमांडर बी एस रावत (17450), 31 जुलाई 2004 (एडी)

विंग कमांडर एस राजशेखर (16777), 04 जून 2004 (एडी)

विंग कमांडर के के मनकोटिया (16827), 16 अगस्त 2004 (एडी)

विंग कमांडर डी के शर्मा (17151), 31 अगस्त 2004 (एडी)

विंग कमांडर ए मिश्रा (16815), 30 अगस्त 2004 (एडी)

विंग कमांडर जे डी सूमन्थ (16283), 31 अगस्त 2004 (एडी)

विंग कमांडर एस बंधोपाध्या (17159), 31 अगस्त 2004 (एडी)

विंग कमांडर जे जे एस पनवर (16589), 31 अगस्त 2004 (एडी)

विंग कमांडर जी एस पन्नू (17348), 31 दिसम्बर 2004 (एडी)

विंग कमांडर के आर अजीत (17329), 31 दिसम्बर 2004 (एडी)

विंग कमांडर पी शेशी (17696), 31 दिसम्बर 2004 (एडी)

विंग कमांडर मनोज कुमार (16554), 31 दिसम्बर 2004 (एडी)

विंग कमांडर एन एस कृष्णा (16818), 31 अक्तुबर 2004 (एडी)

विंग कमांडर ए आर श्रीनाथ (16780), 15 जून 2004 (एडी)

विंग कमांडर आर के शर्मा (17155), 30 अप्रैल 2004 (एडी)

विंग कमांडर एस चेटर्जी (16976), 10 मई 2004 (एडी)

विंग कमांडर सी ए के रड्डी (17140), 30 अप्रैल 2004 (एडी)

विंग कमांडर अशुतोष वर्मा (17314), 31 मई 2004 (एडी)

विंग कमांडर आर के श्रीवास्तव (14289), 31 मार्च 2004 (एडी)

विंग कमांडर अनिल चोपड़ा (16391), 31 मार्च 2004 (एडी)

विंग कमांडर राजीव बतोश (16038), 15 अप्रैल 2004 (एडी)

विंग कमांडर आर मुर्कजी (16410), 30 अप्रैल 2004 (एडी)

विंग कमांडर ए टी समतानी (17002), 30 अप्रैल 2004 (एडी)

विंग कमांडर ए वोहरा (16624), 31 मार्च 2004 (एडी)

विंग कमांडर दिपक गुप्ता (17174), 31 मार्च 2004 (एडी)

विंग कमांडर डी आर अपरनीष (17322), 31 मार्च 2004 (एडी)

विंग कमांडर विवेक जैन (17316), 29 फरवरी 2004 (एडी)

विंग कमांडर एस आर एस हाडा (17396), 31 मार्च 2004 (एडी)

विंग कमांडर एस के कपूर (15695), 31 मार्च 2004 (एडी)

विंग कमांडर पी जे ठाकुर (16095), 31 जनवरी 2004 (एडी)

विंग कमांडर राज कुमार (17357), 31 मार्च 2004 (एडी)

विंग कमांडर ए एस पेडनेकर (17320), 31 जनवरी 2004 (एडी)

स्क्वाड्रन लीडर रजत कोड़ा (19548), 31 जनवरी 2004 (एडी)

स्क्वाड्रन लीडर अजय शर्मा (22155), 31 दिसम्बर 2004 (एडी)

स्क्वाड्रन लीडर दिपक यादव (20976), 30 अप्रैल 2004 (एडी)

स्क्वाड्रन लीडर इकबाल सिंह (20980), 30 अप्रैल 2004 (एडी)

स्क्वाड्रन लीडर पी सिंह (23727), 30 अक्तुबर 2004 (एडी)

स्क्वाड्रन लीडर ए माधव नायर (22542), 31 जुलाई 2004 (एडी)

स्क्वाड्रन लीडर सुप्रिया गुरजर (23638), 30 सितम्बर 2004 (एडी)
 स्क्वाड्रन लीडर वी भरदवाज (21549), 30 सितम्बर 2004 (एडी)
 फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट अमनदिप कोर (26169), 21 अक्टूबर 2004 (एडी)
 फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट एन वे बाजपयी (25333), 30 नवम्बर 2004 (एडी)
 फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट ए आर देशपाण्डे (24055), 30 अप्रैल 2004 (एडी)

ए ई (एल) शाखा

विंग कमांडर टी मोहनाकृष्णन (14792), 30 नवम्बर 2004 (एडी)
 विंग कमांडर जेवी आर बापोरिकर (15651), 31 दिसम्बर 2004 (एडी)
 विंग कमांडर ए पी जोशी (16753), 31 अगस्त 2004 (एडी)
 विंग कमांडर के के दगंदा (15622), 31 अगस्त 2004 (एडी)
 विंग कमांडर आई जे मनडोला (13824) 31 जुलाई 2004 (एडी)
 विंग कमांडर वी के अग्रवाल (17422), 04 सितम्बर 2004 (एडी)
 विंग कमांडर वी के पाटील (15281), 31 अगस्त 2004 (एडी)
 विंग कमांडर एच एस सोयान (14796), 30 सितम्बर 2004 (एडी)
 विंग कमांडर बी एस ब्रमाराज (17631), 30 सितम्बर 2004 (एडी)
 विंग कमांडर जी के दासगुप्ता (15497), 31 मार्च 2004 (एडी)
 स्क्वाड्रन लीडर एस जे सुन्दराज (22848), 18 जून 2004 (एडी)
 स्क्वाड्रन लीडर वी एम अग्रवाल (20274), 29 फरवरी 2004 (एडी)
 स्क्वाड्रन लीडर एस जी जगन्नाथ (22019), 31 अक्टूबर 2004 (एडी)
 स्क्वाड्रन लीडर सी एस हिरामथ (20276), 30 नवम्बर 2004 (एडी)
 स्क्वाड्रन लीडर आर पी राघवेन्द्रा (23889), 30 जून 2004 (एडी)
 स्क्वाड्रन लीडर एम रादद (23907), 31 जुलाई 2004 (एडी)
 स्क्वाड्रन लीडर वी प्रशान्त (24414), 30 सितम्बर 2004 (एडी)
 स्क्वाड्रन लीडर प्रीती सिंह (26665), 30 अप्रैल 2004 (एडी)

ए ई (एम) शाखा

विंग कमांडर जी टी वी के के बाबू (17649), 30 सितम्बर 2004 (एडी)

विंग कमांडर पी षटशेष (17661), 30 सितम्बर 2004 (एडी)
 विंग कमांडर नितित अडके (17618), 30 नवम्बर 2004 (एडी)
 विंग कमांडर वी आर मन्था (17284), 30 जून 2004 (एडी)
 विंग कमांडर एम वी चक्रधर (20220), 29 फरवरी 2004 (एडी)
 विंग कमांडर बी ओमप्रकाश (24662), 30 नवम्बर 2004 (एडी)

(एडम शाखा)

विंग कमांडर के के डी रोय (17386), 30 सितम्बर 2004 (एडी)
 विंग कमांडर एन के बोरा (17062), 31 अगस्त 2004 (एडी)

विंग कमांडर ए के गुप्ता (14743), 31 जुलाई 2004 (एडी)
 विंग कमांडर ए के हवलदार (14477), 30 जून 2004 (एडी)
 विंग कमांडर डी एम माथुर (13886), 31 जनवरी 2004 (एडी)
 विंग कमांडर टी पी एच प्रसाद (17036), 31 दिसम्बर 2004 (एडी)
 विंग कमांडर आई एस एस राजू (17839), 31 दिसम्बर 2004 (एडी)
 विंग कमांडर पी जी जोशी (13649), 30 सितम्बर 2004 (एडी)
 विंग कमांडर एस के कनोडिया (14405), 25 जून 2004 (एडी)
 विंग कमांडर ए के सूरी (14391), 31 मार्च 2004 (एडी)
 विंग कमांडर ए वी पटवर्धन (17148), 30 अप्रैल 2004 (एडी)
 विंग कमांडर ए के यादव (14714), 30 अप्रैल 2004 (एडी)
 विंग कमांडर एस चक्रवर्ती (14941), 31 मार्च 2004 (एडी)
 विंग कमांडर एम एस राठी (15339), 15 मार्च 2004 (एडी)
 स्क्वाड्रन लीडर एस वशिष्ठ (22766), 31 मार्च 2004 (एडी)
 फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट गीता सिंह (24607), 21 फरवरी 2004 (एडी)
 फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट भीम सिंह (24616), 20 जनवरी 2004 (एडी)
 फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट वी शर्मा (24984), 29 फरवरी 2004 (एडी)

लोजिस्टिक शाखा

विंग कमांडर एम वासुदेव (17228), 31 जुलाई 2004 (एडी)
 विंग कमांडर रवी कुमार (15868), 30 नवम्बर 2004 (एडी)
 विंग कमांडर डी के नागर (14520), 19 दिसम्बर 2004 (एडी)
 विंग कमांडर जे एस अलूवालिया (13918), 15 सितम्बर 2004 (एडी)
 स्क्वाड्रन लीडर आर गोपालकृष्णन (23296), 15 सितम्बर 2004 (एडी)

फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट पी के दूबे (23258), 31 मई 2004 (एडी)

लेखा शाखा

विंग कमांडर सी सानडीराने (14979), 30 जून 2004 (एडी)
 विंग कमांडर जे जी कृश्चीयन (13689), 31 जुलाई 2004 (एडी)
 विंग कमांडर एस बिन्द्रा (16881), 30 जून 2004 (एडी)
 विंग कमांडर एस हर्षवर्धन (14534), 31 मार्च 2004 (एडी)

एस के पाई

विंग कमांडर

जे डी पी ओ 3(एफ)

(थल सेना विभाग)

सं. 264, दिनांक 19 अप्रैल 2006--राष्ट्रपति थल सेना अनुदेश 15/79 के अधीन निम्नलिखित अधिकारियों को थल सेना से सेवा निवृत्त करते हैं :-

नियमित सेना
सैनिक दन्त चिकित्सा कोर
(अल्पकालीन कमीशन)
निवृत्ति

मेजर अनु श्रीनिवासन (डी एस-11875डब्ल्यू), 09 नवम्बर 2005(एएन)

कैप्टन अनिका वत्स (डी एस-12021एच), 22 जुलाई 2005(एएन)

कैप्टन बी बीजू मोहनदास (डी एस-12028एम), 05 नवम्बर 2005(एएन)

कैप्टन नितिका (डी एस-12032पी), 19 दिसम्बर 2005(एफएन)

डी. के. तनेजा
मेजर जनरल
ए डी जी डी एस

(वायु शाखा)

सं. 265, दिनांक 19 अप्रैल 2006--राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसर को उसके नाम के सामने दी गई तारीख से उड़ान (पायलट) से प्रशासनिक शाखा में स्थानांतरित करते हैं। इस शाखा में उसकी समायोजित बरिष्ठता उसी प्रकार मानी जाएगी मानो उसे मूल कमीशन ही प्रशासनिक शाखा में प्राप्त हुआ है। अफसर को वायु सेना सूची में स्क्वाड्रन लीडर ए वी पेथीया (24197) प्रशा. व स्क्वाड्रन लीडर ए भारद्वाज (24553) प्रशा. के मध्य रखा जाएगा। अफसर 17 अक्टूबर 2005 से स्थायी निम्न चिकित्सा वर्ग में

होने की वजह से उसी दिन से उड़ान भरे का हकदार नहीं होगा। वा.से.मु. के पत्र संख्या वा.से.मु./21901/24240/पी.ओ.3(ई) दिनांक 21 फरवरी 2006।

स्क्वाड्रन लीडर ए जी परेरा (24240) उड़ान (पायलट) से प्रशासनिक शाखा में दिनांक 17 अक्टूबर 2005 से।

सं. 266, दिनांक 19 अप्रैल 2006--

नियमित सेना
स्थाई आयोग (विशेष सूची)

शुद्धि पत्र

भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के राजपत्र अधिसूचना संख्या 537, दिनांक 18 जून 1998 जो कि राजपत्र दिनांक 25 जुलाई 1998 में प्रकाशित सेना स्थाई आयोग (विशेष सूची) को निम्नलिखित संशोधित किया जाता है :--

“जेसी 186185एच सूबेदार बीभूपति पंडीयन (एस एल-4375डब्ल्यू) ले., इंजीनियर्स का नाम जेसी-174788एम सूबेदार नीरज कुमार केसवाल (एस एल-4379एम) ले. इंजीनियर्स के नीचे और जेसी-198389एफ सूबेदार के पी सिंह चन्जोत्रा (एसएल-4389डब्ल्यू) ले., क्यू एम के ऊपर इसी अधिसूचना में दर्शाया जाए”।

जेसी-186185एच सूबेदार बीभूपति पाण्डे (एस एल-4375डब्ल्यू) ले., इंजीनियर्स का नाम जो राजपत्र अधिसूचना दिनांक 25 जुलाई 1998 में प्रकाशित हुआ है, से हटाया जाता है।

एस. के. शर्मा
ले. कर्नल
ए एन एस-8बी

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 20th May 2006

No. 250, dated the 17th April 2006.—The President is pleased to appoint Shri Rakesh Ranjan, IAS (MT : 92) as Private Secretary to Raksha Mantri (Shri Pranab Mukherjee) at the level of Deputy Secretary in the pay scale of Rs. 15,100-400-18,300/- for a period of five years w.e.f. 11th Aug 2005 (FN) or till he ceases to function as Private Secretary to RM or until further orders, whichever event takes place earliest. He counts his tenure at the Centre w.e.f. 27th Jun 2005.

The President is pleased to appoint Shri Sudhir Garg, IRSEE (87) on transfer from the Ministry of Railways (Railway Board), as Director in the Ministry of Defence w.e.f. 31st Mar 2006 (AN) up to 31st Mar 2011 or until further orders, whichever is earlier.

G. VIJAYARAGHAVAN
Under Secy.

ARMY BRANCH

MUKHYA PRASHASAN ADHIKARI KA KARYALAYA

No. 251, dated the 17th April 2006.—The President is pleased to appoint Kum Aslam Khan (DOB : 05 Mar 1975) as Section Officer (Group 'B' Gazetted) of AFHQ Civil Service on regular basis in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from 25 Nov 2005.

SHANKAR SINGH
Dy. Chief Administrative Officer

No. 252, dated 18th April 2006.—The President has made the following appointment on his Honorary Personal Staff w.e.f. 17 Mar 2006 :—

Honorary Air ADC w.e.f. 17th Mar 2006

Air Mshl. AD Joshi, PVSM, VM (10886) F(P)

Air Mshl. AK Singh, PVSM, AVSM, VM, VSM (11005) F(P)

S. D. BANGA
Under Secy.

No. 253, dated 19th April 2006.—The President is pleased to make the following appointments :—

(REGULAR ARMY)

Permanent Commission

(To be Lts w.e.f. 08 Dec 2001)

Swaroop Singh Kuntal (IC-61414H), EME seniority next below Kashyap Thakker (IC-61413A), INF whose name appeared in the Gazette of India, Ministry of Defence Notification published on 26 Oct 2002.

The undermentioned Gentleman Cadets of 98 Technical Graduates Course are granted permanent commission in

the rank of Lt w.e.f. 10th Dec 2004 (FN) under the terms and conditions of SAI 1/S/94. They are also granted two years ante-date seniority for pay and promotions w.e.f. 11 Dec 2002 under SAI 1/S/94 :—

T/6150 Keshav Singh Jasrotia (IC-64744M), EME with the seniority below T/6130 M Sagir Ali (IC-64743K), Engrs, T/6140 Shailesh Badola (IC-64753N), Sigs with the seniority below T/6098 Nalin Shukla (IC-64752L), Arty and T/6187 Suraj Sharma (IC-64806F), Arty with the seniority below T/6144 Adarsh Kumar (IC-64805Y), Arty whose names have been published in the Gazette of India dated 17 Dec 2005.

SHORT SERVICE COMMISSION (ON PROBATION)

The undermentioned GCs of 98 Technical Graduates Course are granted Short Service Commission (on probation) for the period of their pre-commissioning training at the Indian Military Academy, Dehradun in the rank of Lt with effect from the dates shown against their names under the provisions of SAI 1/S/94 :—

IMA No., Name, SS No., Arm/Services and Date of SSC (on probation)

T/6140 Shailesh Badola (41111M), Sigs, 16 Jan 2004

T/6150 Keshav Singh Jasrotia (41119Y), EME, 16 Jan 2004

T/6187 Suraj Sharma (41154F), Sigs, 20 Jan 2004

CHANDER SHEIKHAR
Lt Col
AMS 8B

(PERSONAL STAFF)

No. 254, dated 19th Apr 2006.—The President is pleased to make the following appointments in his honorary personal staff with effect from 27 Mar 2006 :—

TO BE HONORARY SURGEONS

Officer of the Medical Services of the Navy

Surg VADM (Mrs.) P Arora, SM, VSM (MR-02249L)

Specialist Medical Officer

Lt Gen ML Chawla, VSM (MR-02068A)

Officer of the Medical Services of the Air Force

Air Marshal HK Maini, VSM (MR-02282H)

Officer of the Medical Services of the Army

Lt Gen LP Sadhotra, AVSM (MR-03158N)

Director General Dental Services (Ex-officio)

Lt Gen Paramjit Singh, AVSM, VSM* (DR-10267H)

RAJESH KAMRAN
Brig
Dy. DGAFFMS (P)

AIR BRANCH

No. 255, dated 19th Apr 2006.—The President is pleased to award Permanent Commission and Wings (On Probation) to the undermentioned flight cadets in the rank of Fg Offr under the provisions of AFO 59/98. These officers will be eligible for grant of flying pay with effect from the date of grant of PC & Wings (On Probation) i.e. 20 Dec 2003.

INDIAN AIR FORCE
Flying (Pilot) Branch
Ex-Flight Cadets to be Flying Officers

Fg Offr Manav Bhatia (27695), Ajit Bhaskar Vasane (27697), Saurabh Kabra (27713), Balaraman Jai Ganesh (27714), Vikas Puri (27716), Sagar Vasant Dhupkar (27721), Singh Amit Surendra (27722) w.e.f. 20 Dec 2003.

The President is pleased to award Permanent Commission and Wings (On probation) to the undermentioned flight cadet in the rank of Fg Offr under the provisions of AFO 59/98. The officer will be eligible for grant of flying pay with effect from the date of grant of PC & Wings (On Probation) i.e. 19 Jun 2004.

INDIAN AIR FORCE
Flying (Pilot) Branch
Ex-Flight Cadets to be Flying Officers

Fg Offr EVS Raghavendra Kumar (28008) w.e.f. 19 Jun 2004

S. SRIVASTAVA
Wg Cdr
JDPO-3(D)

No. 256, dated 17th Apr 2006.—Consequent on premature repatriation, the services of Shri Prasoon Kumar Sinha, IP&TA&FS(95), Deputy Secretary, Ministry of Defence are placed at the disposal of the Ministry of Communication and Information Technology, Department of Telecommunications, New Delhi w.e.f. 31 Mar 2006 (AN).

G. VIJAYARAGHAVAN
Under Secy.

(ARMY BRANCH)

No. 257, dated 17th Apr 2006.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY
Infantry
The Mechanised Infantry Regiment
To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Dil Bahadur Chhetry (JC-419665Y),
01 Jan 2006

Nb Sub Chandra Ballabh (JC-419698K), 15 Jan 2006*

*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar w.e.f. 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Prem Singh (JC-419716F) 01 Jan 2006

Nb Sub Jagdish Chand (JC-419760L) 01 Jan 2006

Nb Sub Balwant Singh (JC-419771X) 01 Jan 2006

Nb Sub Sobhan Singh (JC-419789N) 01 Jan 2006

Nb Sub Narinder Singh (JC-419835X) 01 Jan 2006

Nb Sub Kulwant Singh Rana (JC-419974F) 01 Jan 2006

Nb Sub Sunder Lal Saini (JC-419240A) 01 Feb 2006

Nb Sub Methew KM (JC-419241H) 01 Feb 2006

Nb Sub Sarvesh Singh (JC-419425F) 01 Feb 2006

Nb Sub Hari Ram (JC-419453N) 01 Feb 2006

Nb Sub Sitla Prasad Pandey (JC-419522Y) 01 Feb 2006

Nb Sub Vikram Singh Chauhan (JC-419554F) 01 Feb 2006

Nb Sub Ram Awtar (JC-419584Y) 01 Feb 2006

Nb Sub Chanchal Singh (JC-419851P) 01 Feb 2006

Nb Sub Prem Chand Mall (JC-419854H) 01 Feb 2006

To be Naib Subedar

Hav Attar Singh (No. 14902061H now JC-420427Y),
25 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Dec 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Dan Bahadur Regami (No. 14906899H now JC-420428F), 10 Jan 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Dec 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Suresh Chand (No. 14907719F now JC-420429K),
31 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Dec 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Joginder Singh (No. 14908541H now JC-420430Y),
01 Jan 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Dec 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Laxmi Kant Pandey (No. 14907297F now JC-420431F), 23 Jan 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Dec 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Rajpal (No. 14909662W now JC-420432K),
16 Jan 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Dec 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Dilawar Singh (No. 2982161P now JC-420433M),
12 Jan 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect
from 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Maghar Singh (No. 14902815M now JC-420434P),
20 Jan 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect
from 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Yogamber Singh Rawthan (No. 14908917Y now
JC-420435X), 03 Feb 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect
from 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Mannam Prasada Rao (No. 14908826P now JC-
420436A), 02 Jan 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect
from 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Makar Singh (No. 14910093A now JC-420437H),
02 Jan 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect
from 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Symon P (No. 14906215F now JC-420438L),
01 Feb 2006

Hav Arvind Kumar Singh (No. 14905843K now JC-
420439N), 01 Feb 2006

Hav Mahender Singh Rathore (No. 14906250K now
JC-420440H), 01 Feb 2006

THE PRESIDENT'S BODY GUARD
To be Nb Ris (GD)

Dfr Paramjit Singh (No. 13700369X now JC-235043X),
01 Feb 2006

JOSE THOMAS
Under Secy.

No. 258, dated 19th Apr 2006.—The President is pleased
to make the following promotions :—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION
(ARMY MEDICAL CORPS)

Maj Gen (& equivalent) to be Lt Gen (& equivalent)
Yogendra Singh (MR-02475H), 01 Dec 2005

Col (& equivalent) to be Brig (& equivalent)

Shamsher Singh (MR-03241L), 18 Jan 2005—with
notional seniority without effect on pay & pension from
02 Dec 2004

Lt Col (& equivalent) to be Col (& equivalent)

HS Gill (MR-03772H), 10 Nov 2004—with notional
seniority without effect on pay & pension from 27 Apr
2004

R KAMRAN
Brig
Dy. DGAFMS (P)

No. 259, dated 19th Apr 2006.—The President is pleased
to make the following promotions :—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION
Maj to Lt Col

IC No., Name & Arm

IC-41082 Rajiv Kumar Gupta, Inf
IC-41192 Shamsher Singh Kinha, Inf
IC-43775 PK Mathur, Sigs
IC-43853 Gurjit Singh, AOC
IC-43968 B Kumar, Inf
IC-44077 PS Sandhu, Inf
IC-47983 Gurnam Singh, Sigs
IC-47991 Rajender Singh Narula, Engrs
IC-48112 Sachindra A Warty, AC
IC-47438 Krishna Kumar Singh, Inf
IC-43655 K Vinod Kumar, Sigs
IC-43672 Sudhanshu Varma, AOC
IC-43979 Sudershan Singh, ASC
IC-44126 Ravinder Singh Bhatti, Mech Inf
IC-44167 Harinder Pal Singh, Inf
IC-44319 Chandra Shekhar Nautiyal, Inf
IC-41862 Rajpal Punia, Mech Inf
IC-38248 Paramjit Singh, Sigs
IC-43240 Achuthan Kutty KN, Inf
IC-43153 Rajeev Rattan Katyal, Engr
IC-43352 Joshi Naraindutt Ganeshdutt, Int
IC-43377 Anil Kumar, Sigs
IC-43404 Pranav Mishra, Arty
IC-43468 Padma Kumar, Int
IC-43481 Sanjay Grover, Arty
IC-45550 Dinesh Panwar, Inf
IC-45594 Ashok Kumar, Inf
IC-41918 Ravi Kanakeel, Arty
IC-42582 K Pranatharthi Haran, Sigs
IC-42659 Abhaya Raj Sharma, Arty
IC-45303 Sunil Kumar, AC
IC-37813 Vinoda, Inf
IC-37922 Jatinder Singh Arora, Arty
IC-37934 Chowgule Vijay Dnayandev, Inf

IC No., Name & Arm

IC-37993 Sanjay Soi, Inf
 IC-39572 Rajiv Jetley, Inf
 IC-39647 Rajendra Kumar, AOC
 IC-39467 Dalip Bakhshi, Arty
 IC-49761 Anshoo Gambhir, ASC
 IC-39881 Toli Ram Somatia, AOC
 IC-39978 Jagdeep Singh, Inf
 IC-39985 Rupinder Singh Gill, Inf
 IC-40092 S Sunil Kumar, Engr
 IC-40235 Gopal R, Inf
 IC-40248 Vikas Puri, Arty
 IC-40305 Raghu Ram Akela, Engr
 IC-40333 Mickie Oberoi, Engr
 IC-40374 Kanwar Ashok Mahabir, Inf
 IC-40523 Bhup Raj Singh, AC
 IC-40846 Prem Jeet Singh, Arty
 IC-41150 Llewellyn Cyril Paul, Inf
 IC-41152 Dev Raj, Arty
 IC-41162 Jayant Janardhan Khare, Arty
 IC-42066 Dinesh Chandra Sharma, Inf
 IC-42071 S Ravindran Pillay, Inf
 IC-42638 Narendra B Patel, AOC
 IC-43185 Gurakha Shanker, EME
 IC-39893 Pankaj Goel, ADA
 IC-49486 Narenra Singh, Inf
 IC-49506 Sudhir Kumar Singh, Sigs
 IC-40696 Rajesh Kumar, AC
 IC-40708 Satinder Iqbal Singh, AC
 IC-40799 Vankey Badola, Inf
 IC-41028 Kanwar Singh Chahal, Inf
 IC-45003 Sangram Singh, AC
 IC-46730 Jaspreet Singh, Sekhon, AC
 IC-44405 SK Gautam, M/Inf
 IC-49269 Narendra Singh, EME
 IC-51396 Jawahar Singh, EME
 IC-51397 S Raju, Sigs
 IC-51398 NS Raman, Engrs
 IC-51399 Ajit Meela, Engrs

IC No., Name & Arm

IC-51401 Baljeet Singh, EME
 IC-51402 GS Kanwar, Engrs
 IC-51403 Parvinder Singh, Engrs
 IC-51404 F Amritharaj PA, EME
 IC-51405 BS Kang, EME
 IC-51406 Rajesh Agrawal, Engrs
 IC-51407 YC Pandey, EME
 IC-51409 RR Munshi, Engrs
 IC-51410 Sudeepta Pal, Engrs
 IC-51411 S Tangri, EME
 IC-51412 JN Bhamre, Engrs
 IC-51413 PJ Thomas, Engrs
 IC-51414 Yogiesh Yadav, Engrs
 IC-51415 RS Shekhawat, Engrs
 IC-51416 BS Saini, EME
 IC-51420 Pawan Kukreja, Sigs
 IC-51421 SK Chetty, Engrs
 IC-51422 Rajen Basera, Sigs
 IC-51424 Iqbal Aslam, Engrs
 IC-51425 MK Khare, Engrs
 IC-51426 Arvinder Singh, Engrs
 IC-51427 R Kumar, Sigs
 IC-51429 Scion Sinha, Engrs
 IC-51430 I Borghain, Engrs
 IC-51431 A Shandilya, Sigs
 IC-51432 S Mangain, Engrs
 IC-51433 Kan Dev, Engrs
 IC-51434 NM Balchandran, Engrs
 IC-51435 Neeraj Sharma, Engrs
 IC-51436 Vikas Sharma, EME
 IC-51438 NK Jain, Engrs
 ✓ IC-51439 Y Mohan, Engrs
 IC-51441 Sanjay Garg, Engrs
 IC-51442 SK Ahluwalia, Sigs
 IC-51444 P Mathusuthanan, EME
 IC-51445 CP Sriram, EME
 IC-51446 SM Kannan, Sigs
 IC-51447 S Patranabis, Engrs

IC No., Name & Arm

IC-51448 Jitesh Kumar, EME
 IC-51449 Vinod Kumar, EME
 IC-51451 Vivek Jain, Engrs
 IC-51452 Sam Sharma, EME
 IC-51453 B Shastri, Engrs
 IC-51454 A Shreenath, Sigs
 IC-51455 K Roshan Raj, EME
 IC-51456 Niraj Bakshi, EME
 IC-51457 KN Narsimha, Engrs
 IC-51459 K Sundresh, EME
 IC-51460 Sriharsha, Sigs
 IC-51462 PJ Singh, Sigs
 IC-51463 Suneel Murti, Engrs
 IC-51464 B Prasad, Engrs
 IC-51465 Salil Baxi, Engrs

—16 Dec 2004—

Lt Col (TS) to Lt Col

IC No., Name & Arm

IC-40663 RK Bhatnagar, Engrs

—16 Dec 2004—

Maj to Lt Col

SL No., Name & Arm

SL-4594 Anil Khandari, SL(ASPT)

—16 Dec 2004—

PERMANENT COMMISSION (SL)

Maj to Lt Col

SL No., Name & Arm

SL-3335 Dilbagh Singh, SL RO

SL-3353 PK Puri, SL RO

SL-3913 CJ Joseph, SL SA

SL-3071 P Venkatchalam, SL AE

SL-3659 YD Sharma, SL ER

—16 Dec 2004—

PERMANENT COMMISSION

Lt Col (TS) to Lt Col

Pers No., Name & Arm

35757 RK Sharma, ASC

—16 Dec 2004—

PERMANENT COMMISSION (SL)

Pers No., Name & Arm

SL-3494 Dharma Rajan, SL TOT
 SL-3680 Abhi Manio Manhas, SL AE
 SL-3701 Jai Singh Kaliraman, SL RO
 SL-3715 Dinkar Rai Ramnihal Mandalia, SL (TOT)
 SL-3778 Subhash Raj Dadhwal, SL (QM)
 SL-3828 Mohan Singh Bora, SL (AE)
 SL-03941 Shelke Sahebrao Parwati, EMAE (SA)
 SL-3952 RP Yadav, SL EMAE (SA)
 SL-3953 TMV Rao, SL EMAE (SA)
 SL-3748 Mohar Singh, SL CIPH
 SL-3753 Chamarty Venkata Laxmi N Rao, SL RO

—16 Dec 2004—

PERMANENT COMMISSION

Maj to Lt Col (SL)

Pers No., Name & Arm

SL-3899 Manmadhan Nair D, EMAE (SA)

—16 Dec 2004—

AJAY GOEL
 Dy. Dir.

AIR BRANCH

No. 260, dated 18th April 2006.—The President is pleased to make the following substantive promotions :—

INDIAN AIR FORCE

AE BRANCH

To be substantive Air Vice Marshal

GPS Dua (13306) AE(L)—03 Oct 2005

To be Substantive GP Capt

Particular of the Officers & Date

GP Capt (ACTG) Ms Shankar (15810) AE(L)—01 Jul 2005/01 Jul 2003 (NS)

(His name will appear between GP Capts T Chand (16149) AE(L) and S Sharma (15839) AE(L) in the Combined Gradation List)

GP Capt (ACTG) BS Viridi (15260) AE(M)—15 Apr 2005

GP Capt (ACTG) GNS Premnath (15259) AE(M)—15 Apr 2005

GP Capt (ACTG) M Kakar (14586 AE(L)—15 Apr 2005

GP Capt (ACTG) R Singh (15089) AE(L)—15 Apr 2005

GP Capt (ACTG) G Singh (15270) AE(L)—15 Apr 2005

GP Capt (ACTG) MR Thella (15459) AE(L)—15 Apr 2005

GP Capt (ACTG) KK Dhiman (15292) AE(L)—09 Jun 2005

GP Capt (ACTG) R Kumar (15631) AE(L)—09 Jun 2005

GP Capt (ACTG) IJ Singh (15637) AE(M)—09 Jun 2005/(P/R-30 Jun 2005)

GP Capt (ACTG) SP Yadav (15840) AE(M)—09 Jun 2005

GP Capt (ACTG) KMS Pradeep (15818) AE(L)—09 Jun 2005

GP Capt (ACTG) G Kumar (15831) AE(L)—09 Jun 2005

GP Capt (ACTG) JM Joshi (15959) AE(L)—01 Jul 2005

GP Capt (ACTG) SS Anand (15944) AE(L)—08 Jul 2005

GP Capt (ACTG) AK Bhattacharya (16322) AE(M)—08 Jul 2005

GP Capt (ACTG) TL Verma (16314) AE(L)—08 Jul 2005

GP Capt (ACTG) TN Ajithkumar (16309) AE(L)—01 Aug 2005

GP Capt (ACTG) J Singh (16529) AE(L)—09 Aug 2005

GP Capt (ACTG) TB Mathew (17111) AE(L)—01 Jan 2006

GP Capt (ACTG) PK Tayal (16751) AE(L)—01 Jan 2006

GP Capt (ACTG) R Gandotra (16748) AE(M)—01 Jan 2006

GP Capt (ACTG) G Karthikeyan (16741) AE(L)—01 Jan 2006

GP Capt (ACTG) MR Pawar (15833) AE(M)—29 Jul 2005/01 Nov 2003 (NS)

(His name will appear between GP Capts R Selvamani (15957) AE(L)(Retd) and P Kumar (15970) AE(M) in the Combined Gradation List)

FLYING BRANCH

To be Substantive Air vice Marshal

DN Ganesh (13243) F(P)—01 Dec 2005

To be Substantive Air CMDR

Particular of the Officers & Date

AIR CMDE (ACTG) S Srivastava (13782) F(P)—10 Jan 2005/01 Oct 2004 (NS)

AIR CMDE (ACTG) J Chauhan (14079) F(P)—01 Oct 2004

AIR CMDE (ACTG) I Singh (14082) F(P)—25 Oct 2004

AIR CMDE (ACTG) RK Jolly (14083) F(P)—01 Nov 2004

AIR CMDE (ACTG) P Singh (14086) F(P)—03 Jan 2005/01 Nov 2004 (NS)

AIR CMDE (ACTG) RK Sharma (14088) F(P)—01 Nov 2004

AIR CMDE (ACTG) UP Biswas (14090) F(P)—01 Dec 2004

AIR CMDE (ACTG) P Kumar (14093) F(P) 01 Dec 2004

AIR CMDE (ACTG) S Mishra (14094) F(P)—27 Dec 2004

AIR CMDE (ACTG) PS Gill (14097) F(P)—10 Jan 2005

AIR CMDE (ACTG) PK Roy (14100) F(P)—08 Mar 2005/10 Jan 2005 (NS)

AIR CMDE (ACTG) P Ramu (14102) F(P)—10 Jan 2005

AIR CMDE (ACTG) M Matheswaran (14104) F(P)—01 Mar 2005

AIR CMDE (ACTG) KK Dwivedi (14105) F(P)—03 Mar 2005

AIR CMDE (ACTG) Roj Assey (14108) F(P)—29 Mar 2005

AIR CMDE (ACTG) AK Malhotra (14112) F(P)—01 May 2005

AIR CMDE (ACTG) JK Bhuyan (14115) F(P) 13 May 2005

(Their names will appear below AIR CMDE S Sharma (13813) F(P) in the Combined Gradation List)

To be Substantive GP Capt

Particular of the Officers & Date

GP CAPT (ACTG) D Dhawan (15403) F(P)—10 May 2004

(His name will appear above GP CAPT A Verma (15410) F(P) in the Combined Gradation List)

GP CAPT (ACTG) S Banerjee (15892) F(P)—10 May 2004

(His name will appear between GP CAPTS SM Adyanthaya (15899) F(N) and KR Raghunath (16027) F(P) in the Combined Gradation List)

GP CAPT (ACTG) GS Mann (16033) F(P)—10 May 2004

(His name will appear below GP CAPT KR Raghunath (16027) F(P) in the Combined Gradation List)

GP CAPT (ACTG) SN Mohanty (16052) F(P)—10 May 2004

GP CAPT (ACTG) MP Tiomas (16065) F(P)—10 May 2004

(Their names will appear above GP CAPT C Prakash (16250) F(M) in the Combined Gradation List)

GP CAPT (ACTG) KA Muthana (16372) F(P)—01 Jan 2005/10 May 2004 (NS)

(His name will appear above GP CAPT J Chandrasekhar (16374) F(P) in the Combined Gradation List)

GP CAPT (ACTG) A Subramaniam (16592) F(P) 01 Mar 2005

GP CAPT (ACTG) VS Bharti (16611) F(P)—01 Mar 2005

GP CAPT (ACTG) PS Sandhu (16615) F(P)—01 Mar 2005/(P/R-15 Apr 2005)

GP CAPT (ACTG) M Mannen (16618) F(P)—19 Dec 2005/01 Mar 2005 (NS)

[Their names will appear below GP CAPT R Sachdeva (16582) F(P) in the Combined Gradation List]

KV SHANKAR
Jt. Dir. of Personnel (Officers) 2(B)

(ARMY BRANCH)

No. 261, dated 19th April 2006.—The President is pleased to permit the undermentioned AD Corps Officers to resign from Army Service at their own request w.e.f. the date shown against their names :—

REGULAR ARMY ARMY DENTAL CORPS SHORT SERVICE COMMISSION RESIGNATION/RELEASE

DS-12080P Capt Karun Sagar—30 Aug 2005 (FN)

DS-12143M Capt Nitin Kaushal—01 Jan 2006 (FN)

DK TANEJA
Maj. Gen.
Addl DGDS

No. 262, dated 17th April 2006.—The President is pleased to retire Shri Gurdial Singh, Deputy Secretary, Ministry of Defence from Government Service with effect from 31 March 2006 (AN) on attaining the age of superannuation.

G. VIJAYARAGHAVAN
Under Secy.

(AIR BRANCH)

No. 263, dated 19th April 2006.—The President is pleased to permit the undermentioned officers to retire from service on Premature Retirement with effect from the dates shown against their names.

F(P) BRANCH

Date of Retirement

WG CDR J Chowdhury, 16406—31 Mar 2004 (AD)

WG CDR BS Rawal, 1/450—31 Jul 2004 (AD)

WG CDR S Rajshekar, 16777—04 Jun 2004 (AD)

WG CDR KK Mankotia, 16827—16 Aug 2004 (AD)

WG CDR DK Sharma, 17151—31 Aug 2004 (AD)

WG CDR A Mista, 16815—30 Aug 2004 (AD)

WG CDR JD Sumanth, 16238—31 Aug 2004 (AD)

WG CDR S Bandhopadhaya, 17159—31 Aug 2004 (AD)

WG CDR JJS Panwar, 16589—31 Aug 2004 (AD)

WG CDR GS Pannu, 17348—31 Dec 2004 (AD)

WG CDR KR Ajit, 17329—31 Dec 2004 (AD)

WG CDR P Rishi, 17696—31 Dec 2004 (AD)

WG CDR Manoj Kumar, 16554—15 Dec 2004 (AD)

WG CDR NS Krishna, 16818—31 Oct 2004 (AD)

WG CDR AR Srinath, 16780—15 Jun 2001 (AD)

WG CDR RK Sharma, 17155—30 Apr 2004 (AD)

WG CDR S Chatterjee, 16976—10 May 2004 (AD)

WG CDR CAK Reddy, 17140—30 Apr 2004 (AD)

WG CDR Ashutosh Verma, 17314—31 May 2004 (AD)

WG CDR RK Shrivastava, 14289—31 Mar 2004 (AD)

WG CDR Anil Chopra, 16391—31 Mar 2004 (AD)

WG CDR Rajiv Ballish, 16038—15 Apr 2004 (AD)

WG CDR R Mukerjee, 16410—30 Apr 2004 (AD)

WG CDR AT Samtani, 17002—30 Apr 2004 (AD)

WG CDR A Vohra, 16624—31 Mar 2004 (AD)

WG CDR Deepak Gupta, 17174—31 Mar 2004 (AD)

WG CDR DR Auplish, 17322—31 Mar 2004 (AD)

WG CDR Vivek Jain, 17316—29 Feb 2004 (AD)

WG CDR SRS Hada, 17346—31 Mar 2004 (AD)

WG CDR SK Kapoor, 15695—31 Mar 2004 (AD)

WG CDR PJ Thakur, 16045—31 Jan 2004 (AD)

WG CDR Raj Kumar, 17357—31 Mar 2004 (AD)

WG CDR AS Pednekar, 17320—31 Jan 2004 (AD)

SQN LDR Rajat Kaura, 19548—31 Jan 2004 (AD)

SQN LDR Ajay Sharma, 22155—31 Dec 2003 (AD)

SQN LDR Deepak Yadav, 20976—30 Apr 2004 (AD)

SQN LDR Iqbal Singh, 20980—30 Apr 2004 (AD)

SQN LDR P Singh 23727—30 Oct 2004 (AD)

SQN LDR A Madhav Nair, 22542—31 Jul 2004 (AD)

SQN LDR Supriya Gurjar, 23638—30 Sep 2004 (AD)

SQN LDR V Bhardwaj, 21549—30 Sep 2004 (AD)

FLT LT Amandeep Kaur, 26169—21 Oct 2004 (AD)

FLT LT T Bajpai, 25333—30 Nov 2004 (AD)

FLT LT AR Deshpande, 24055—30 Apr 2004 (AD)

AE(L) BRANCH

WG CDR T Mohanakrishnan, 14792—30 Nov 2004 (AD)

WG CDR JVR Baporikar, 15651—31 Dec 2004 (AD)

WG CDR AV Joshi, 16753—31 Aug 2004 (AD)

WG CDR KK Dangda, 15622—31 Aug 2004 (AD)

WG CDR D Bhandola, 13824—31 Jul 2004 (AD)

WG CDR VK Agarwal, 17422—04 Sep 2004 (AD)

WG CDR VK Patil, 15281—31 Aug 2004 (AD)

WG CDR HS Siyam, 14796—30 Sep 2004 (AD)

WG CDR BS Bharama Raj, 17631—30 Sep 2004 (AD)

WG CDR GK Dasgupta, 15497—31 Mar 2004 (AD)

SQM LDR SJ Sundaraj, 22848—18 Jun 2004 (AD)

SQN LDR VM Agarwal, 20274—29 Feb 2004 (AD)

SQN LDR SG Jagannath, 22019—31 Oct 2004 (AD)

SQN LDR CS Hiremath, 20276—30 Nov 2004 (AD)

FLT LT RP Raghavendra, 23889—30 Jun 2004 (AD)

FLT LT M Gadad, 23907—31 Jul 2004 (AD)

FLT LT V Prashant, 24414—30 Sep 2004 (AD)

FG OFFR Preeti Singh, 26665—30 Apr 2004 (AD)

AE(M) BRANCH

WG CDR TVKK Babu, 17649—30 Sep 2004 (AD)

WG CDR P Badrish, 17661—30 Sep 2004 (AD)

WG CDR Nitin Adke, 17616—30 Nov 2004 (AD)

WG CDR VR Mantha, 17284—30 Jun 2004 (AD)

SQN LDR MV Chakradhar, 20220—29 Feb 2004 (AD)

FLT LT B Omprakash, 24662—30 Nov 2004 (AD)

ADM BRANCH

WG CDR KKD Roy, 17386—30 Sep 2004 (AD)

WG CDR MK Bose, 17062—31 Aug 2004 (AD)

WG CDR AK Gupta, 14743—31 Jul 2004 (AD)

WG CDR AK Halder, 14477—30 Jun 2004 (AD)

WG CDR DM Mathur, 13886—31 Jan 2004 (AD)

WG CDR TPH Prasad, 17036—31 Dec 2004 (AD)

WG CDR ISS Raju, 17389—31 Dec 2004 (AD)

WG CDR PG Joshi, 13649—30 Sep 2004 (AD)

WG CDR SK Kanodia, 14405—25 Jun 2004 (AD)

WG CDR AK Suri, 14391—31 Mar 2004 (AD)

WG CDR AV Patwardhan, 17148—30 Apr 2004 (AD)

WG CDR AK Yadav, 14714—30 Apr 2004 (AD)

WG CDR S Chakravarty, 14941—31 Mar 2004 (AD)

WG CDR MS Rathee, 15339—15 Mar 2004 (AD)

SQN LDR S Vashist, 22766—31 Mar 2004 (AD)

FLT LT Geeta Singh, 24607—24 Feb 2004 (AD)

FLT LT Bhim Singh, 24616—20 Jan 2004 (AD)

FLT LT V Sharma, 24984—29 Feb 2004 (AD)

LGS BRANCH

WG CDR Vasudev M, 17228—31 Jul 2004 (AD)

WG CDR Ravi Kumar, 15868—30 Nov 2004 (AD)

WG CDR DK Nagar, 14520—19 Dec 2004 (AD)

WG CDR JS Ahluwalia, 13918—15 Sep 2004 (AD)

SQN LDR R Gopal Krishnan, 23296—15 Sep 2004 (AD)

FLT LT PK Dubey, 23258—31 May 2004 (AD)

ACCTS BRANCH

WG CDR C Sandirane, 14979—30 Jun 2004 (AD)

WG CDR JG Christian, 13689—31 Jul 2004 (AD)

WG CDR AS Bindra, 16881—30 Jun 2004 (AD)

WG CDR S Harshavardhan, 14534—31 Mar 2004 (AD)

SK PAI
Wg Cdr
JDPO 3(F)

(ARMY BRANCH)

No. 264, dated 19th April 2006.—The President is pleased to release the undermentioned officers from Army Service w.e.f. the dates shown against their names under AI 15/79.

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

SHORT SERVICE COMMISSION RELEASE

DS-11875W Maj (Ms) Anu Srinivasan—09 Nov 2005 (AN)

DS-12021H Capt (Ms) Anika Vats—22 Jul 2005 (AN)

DS-12028M Capt V Biju Mohandas—05 Nov 2005 (AN)

DS-12032P Capt (Ms) Nitika—19 Dec 2005 (FN)

DK TANEJA
Maj. Gen.
Addl. DGDS

(AIR BRANCH)

No. 265, dated 19th April 2006.—The President is pleased to transfer the undermentioned officer from F(P) to Administrative Branch with effect from the date indicated against his name with adjusted seniority in that branch as if he was originally commissioned in the Admn Branch. The officer will be placed between Sqn Ldr AV Pethia (24197) Adm and Sqn Ldr A Bhardwaj (24533) Adm in the Air Force List. The officer will not be entitled to Flying Pay with effect from the date of obtaining Permanent Low Non-Flying Medical Category i.e. 17 Oct 2005 vide Air HQ/21901/24240/PO-3(E) dated 21 Feb 2006.

Sqn Ldr AG Pereira (24240) F(P) to Adm w.e.f. 17 Oct 2005

P. SINGH
Wg Cdr
JDPO-3(E)

No. 266 dated 19th April 2006.—

(REGULAR ARMY)

PERMANENT COMMISSION (SPECIAL LIST)

CORRIGENDUM

In the Gazette of India, Notification No. 537 dated 18 Jun 1998 published in the Gazette of India on 25 Jul 1998 under the heading 'Permanent Commission (Special List) in the Regular Army, is amended as Under :—

"The name of the JC-186185H Sub B Bhoopathi Pandian (SL-4375W), Lt, Engrs, is to be inserted below JC-174788M Sub Neeraj Kumar Keshtwal (SL-4379M), Lt Engrs and above JC-198389F Sub KP Singh Chanjhotra (SL-4389W) Lt, QM".

The name of JC-186185H Sub B Bhoopathi Pandey (SL-4375W), Lt, Engrs appearing in Gazette Notification published on 25 Jul 1998 is hereby deleted.

SK SHARMA
Lt. Col
AMS 8B